



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

109
10/10/02

सं० 45]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10, 2001 (कार्तिक 19, 1923)

No. 45]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 2001 (KARTIKA 19, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

केनरा बैंक

प्रधान कार्यालय

बैंगलूर, दिनांक 26 सितंबर 2001

सं. पी डब्ल्यू पी एम/6144/80/एस के आर--बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, नामशः

1. लघु शीर्ष और शुरुआत :

(3) इस विनियमावली को केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमावली 2000 कहा जाएगा।

(4) यह विनियमावली सरकारी गजट में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

2. केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमावली 1979 में विनियम 19 के उपविनियम (1) के संदर्भ में दी गई व्याख्या के बाद निम्नांकित प्रावधान शामिल किया जाये, नामशः

“यशर्तें कि एक अधिकारी कर्मचारी जिनकी जन्म तिथि माह के पहले दिन को है, सेवा नियुक्ति की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपराह्न मेवा से निवृत्त होंगे”।

पाद टिप्पणी : उक्त विनियमावली में इसके पहले किए गए संशोधन भारत के राजपत्र में निम्न विवरणों के अनुसार प्रकाशित किए गए थे।

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	तारीख
1	अधिसूचना सं 15 पृष्ठ सं. 1005	09.04.1988
2	अधिसूचना सं 52 पृष्ठ सं. 5821	26.12.1996

एम एन नायक
महा प्रबन्धक

दिनांक 12 अक्टूबर, 2001

शुद्धिपत्र

विषय : केंद्र बैंक सामान्य विनियमन 2000--शुद्धिपत्र

भारत के राजपत्र, भाग-III, धारा -4, दिनांक 03/03/2001 (फाल्गुन 17, 1922) में प्रकाशित केंद्र बैंक सामान्य विनियमन 2000 का शुद्धिपत्र।

केंद्र बैंक सामान्य विनियमन 2000 का हिन्दी रूपांतर, भारत के राजपत्र में दिनांक 03/03/2001 के पृष्ठ सं. 1468 से 1502 तक प्रकाशित किया गया है। सत्यापन पर पाया गया है कि, केंद्र बैंक सामान्य विनियमन 2000, शीर्ष में, वर्ष का गलती से उल्लेख "केंद्र बैंक सामान्य विनियमन 1999" के रूप में किया गया है। तथा केंद्र बैंक सामान्य विनियमन 2000 के अंग्रेजी रूपांतर के भाग संलग्न प्रपत्र के और ख, जो दिनांक 03/03/2001 की उमी 1515 से 1541 तक प्रकाशित है, तथा राजपत्र के हिन्दी रूपांतर में प्रकाशित नहीं हुए हैं।

समाधान, निर्मांकित का प्रतिस्थापन किया जाए :

1. केंद्र बैंक सामान्य विनियमन 1999, के स्थान पर निर्मांकित वर्ष, का प्रतिस्थापन किया जाए और उसे, "केंद्र बैंक सामान्य विनियमन 2000" के रूप में पढ़ा जाए।

2. हिन्दी रूपांतर में एतद्वारा प्रकाशित, प्रपत्र के और ख को दिनांक 03/03/2001 के राजपत्र में पहले ही प्रकाशित केंद्र बैंक सामान्य विनियमन के अधिन अंग और उक्त केंद्र बैंक सामान्य विनियमन 2000 के अनुबंधों के रूप में माना जाए।

केंद्र बैंक

फॉर्म "ए"

शेयर अंतरण पत्र

[विनियमन 17 के उपानयन (1) देखें]

नामत अंतरणकर्ता को नीचे बताये गये प्रतिफल हेतु, नीचे विनिर्दिष्ट शेयर "अंतरणकर्ता (ओं) द्वारा अब धारित उक्त शेयरों पर लागू शर्तों के अधिन "अंतरित (यों)" को अंतरित करता है/करते हैं और अंतरिनी उक्त शर्तों के अधिन उक्त शेयरों को स्वीकार एवं धारण करने के लिए एतद्वारा सहमत है/हैं।

कंपनी का पूरा नाम मान्यता प्राप्त स्टॉक विनियम केन्द्रों के नाम, जहां इनका लेन-देन किया जाता है, अगर कोई हो तो

अवधि का विवरण

कुल शेयर (अंकों में)	कुल शेयर (शब्दों में)	प्रतिफल (अंकों में)	प्रतिफल (शब्दों में)
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------

सम्पत्ति से

व्यय में तक

[नृःपी प्रमाण पत्र सं.]

अंतरणकर्ता प्रमाण पत्र सं.

अंतरणकर्ता (ओं) [(चिकेता (ओं)] पंजीकृत हस्ताक्षर

का व्यौग

पन्ना सं.

पूरा/पूरे नाम

1.

2.

3.

4.

अनुप्रमाणन

मैं यहां पर उल्लिखित अंतरणकर्ता(ओं)

के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

साक्षी के हस्ताक्षर

करता हूँ।

साक्षी का नाम व पता

हस्ताक्षर

.....

.....

.....

..... पिन

नाम

पता/मुहर

अंतरिनी(यों) का/

के पूरा/पूरे नाम

[क्रेता(ओं) का व्यौग]

हस्ताक्षर

1.

2.

3.

व्यवसाय

पता

पिता/पति का नाम

1.

2.

3.

अंतरिनी(यों) का/के वर्तमान

पत्ने अगर कोई हों तो,

लगाये गये स्टॉप

नाम वं उसी क्रम में का मूल्य

दिनांक माह रन दो हजार

स्थान

कार्यालय के उपयोग हेतु

पन्ना

कंपनी कूट

..... द्वारा जांच की गयी

..... द्वारा हस्ताक्षर की जांच की गयी

..... के रजिस्ट्र में दर्ज किया गया

अंतरण सं. अन्तरिनी(यों) 1.

अनुमोदन तिथि का नमूना 2.

हस्ताक्षर

3.

अनुप्रमाणन हेतु अनुदेश :

जहां कहीं अपेक्षित हो अनुप्रमाणन (अंगूठा निशान, चिह्न, हस्ताक्षर में भिन्नता इत्यादि), मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट या सार्वजनिक समान पद पर तैनात अधिकारी तथा जिन्हें अपने कार्यालय की मोहर के उपयोग करने का अधिकार है या मान्यताप्राप्त स्टॉक विनियम

केन्द्र के सदस्य जिनके द्वारा शेयर का परिचय दिया गया है या अंतरणकर्ता के शाखा प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए।

नोट—सीधी लकीर पर नामवाली रबड़ मोहर लगाना बेहतर होगा। कालानुक्रम बनाए रखना चाहिए। जब कभी सुपुर्दगी समाशोधन सदस्य बैंक द्वारा की जाती है तो दलाल की समाशोधन संख्या दी जानी चाहिए।

सुपुर्दगी दलाल या दिनांक
समाशोधन सदस्य का नाम

पता.....

राजस्व स्टॉप लगाएं

एम. वी. बालसुब्रमणियन
उप महा प्रबंधक

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 01 नवम्बर 2001

सं. 13-सी. ए./परीक्षा/आई. एस. ए./डी/2001--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 [जो अधिसूचना संख्या-1-सी.ए.(7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के द्वारा संशोधित किया गया] के नियम-7, अनुसूची 'एफ' के अनुसार दि कौंसिल ऑफ दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कोर्स की निर्धारण परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) 15.12.2001 को सत्र 8 बजे से 12 बजे दोपहर को निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी। बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं--

परीक्षा केन्द्र :-

1. बंगलौर
2. चैन्नई
3. कोयम्बटूर
4. हैदराबाद
5. कानपुर
6. कोलकाता
7. मुम्बई
8. नई दिल्ली
9. पूना
10. त्रिची
11. विजयवाड़ा

परिषद् अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है।

यह परीक्षा इन्स्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं, के लिए है।

इस परीक्षा के लिए परीक्षा-शुल्क 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) है।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होना चाहिए। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 28.11.2001 तक पहुंच जाए। दिनांक 28.11.2001 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस परीक्षा के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर ही किया जाना चाहिए जो कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 5 नवम्बर, 2001 से प्राप्त किए जा सकते हैं।

जगदम्बा प्रसाद
अतिरिक्त सचिव (परीक्षा)

मुख्तारनामा/वसीयत प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र/प्रशासन पत्र
दिनांक.....को कंपनी सं.के पास पंजीकृत
.....
दलाल, बैंक, कंपनो या स्टॉक विनियम केन्द्र या समाशोधन केन्द्र के हस्ताक्षर (आद्यक्षर नहीं)
.....द्वारा दर्ज किया गया
पूरा पता.....
.....
.....को शेयर प्रमाण पत्र लौटाया जाए
(वह नाम व पता दिया जाए जिसको प्रमाण पत्र वापस किया जाना है)
नाम व पता :
.....
.....

शेयर अंतरण स्टॉप

केनरा बैंक
फॉर्म "बी"
प्रतिनिधित्व फॉर्म

[विनियमन 70 के उपनियम (iii) देखें]

पन्ना सं.....

(शेयर धारक द्वारा भरा जाए)

.....राज्य के.....जिले के.....निवासी
मैं/हम, केनरा बैंक का शेयर धारक हूँ/हैं.....राज्य के.....
जिले के निवासी श्री.....को और उनकी अनुपस्थिति
में.....राज्य के.....जिले के निवासी श्री.....
.....को दिनांक.....माह.....
200..... को या फिर स्थगित होकर होने वाली केनरा बैंक की शेयरधारकों
की बैठक में मेरे/हमारे ओर से मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में मतदान करने
हेतु नियुक्त करता हूँ।

आज दिनांक.....माह.....200..... को हस्ताक्षरित

नाम.....

CANARA BANK
PERSONNEL MANAGEMENT SECTION
PERSONNEL WING
HEAD OFFICE

Bangalore, the 26th September 2001

No PWPM/6144/80/SKR—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the CANARA BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations namely —

- 1 (3) These regulations may be called CANARA BANK (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2000
- (4) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
- 2 In the CANARA BANK (Officers') Service Regulations, 1979—after explanation to sub-regulation (1) of Regulation 19, the following proviso shall be inserted, namely —

"Provided that an Officer employee whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of retirement

FOOTNOTE The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Official Gazette as per details given below

Sl No	Notification No	Date
1	Notification No 15 Page No 1005	9th April 1988
2	Notification No 52 Page No 5821	28th December 1996

M S NAYAK
General Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS
OF INDIA

New Delhi-110002, the 1st November 2001

No 13-CA (Exam)/ISA/D/2001 - In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered

Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No 1-CA(7)/59/2001 dated 28th September, 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Assessment Test on Information Systems Audit Course will be held on 15th December, 2001 from 8 00 am to 12 00 noon at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre —

EXAMINATION CENTRES

- | | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 1 Bangalore | 2 Chennai | 3 Coimbatore |
| 4 Hyderabad | 5 Kanpur | 6 Kolkata |
| 7 Mumbai | 8 New Delhi | 9 Pune |
| 10 Trichy | 11 Vijayawada | |

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason

The above test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course

The fees payable for the above Assessment Test is Rs 1000/-

Payment of fees for the examination should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled/Nationalised/Multinational Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Additional Secretary (Examinations) at New Delhi on or before 28th November, 2001

Applications for admission to the examination is required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Additional Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi-110 002 on payment of Rs 25/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from 5th November, 2001. The last date for receipt of duly filled in application forms is 28th November, 2001. The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Additional Secretary (Exams), New Delhi. The applications received after 28th November 2001 will not be entertained under any circumstances.

JAGDAMBA PRASAD
Additional Secy (Exams)